

SANGAM SKM COLLEGE- NADI

YEAR 11

HINDI

SOLUTION

WEEK ONE

क.

क. संदेह

ख. आषा

ग. चकित

घ. चौक गए

ङ. घबराने लगा

ख.

क. दया उमड़ पड़ी

ख. रफूचक्कर हो गया

ग. देख लिया

घ. धोखा देकर चलते बने

ङ. उचित फैसला सुना गया

च. बहुत ही लज्जित हुआ

छ. बेकार बैठना

ज. ज्यों के त्यों बनी हुई है

ग. निबंध

बाल मजदूरी

किसी भी व्यक्ति के लिए बचपन ही सबसे अच्छा और सुनहरा वक्त होता है लेकिन जब बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ नन्हे हाथों पर डाल दिया जाता है तो बचपन के साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है

क्योंकि बच्चों से उनके माता-पिता या अभिभावक कुछ चंद रुपयों के लिए कठिन कार्य करवाते हैं जिससे वह बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है और वह किसी नौकरी करने के योग्य भी नहीं रह पाता है इसलिए उसे मजदूरी वश जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ती है जिससे उसका पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत होता है.

बाल मजदूरी हमारे समाज और हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है आज भले ही भारत के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जब किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हैं तो उसकी सहायता नहीं करते हैं सहायता करना तो दूर वे पुलिस या अन्य सरकारी संस्थाओं को इसकी जानकारी तक नहीं देते हैं किसी भी बच्चे के लिए बचपन में काम करना एक बहुत ही भयावह स्थिति होती है क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है।

जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही बाल मजदूर भी बढ़ते ही जा रहे हैं इसे अगर जल्द ही रोका नहीं गया तो हमारे देश के लिए यह आने वाली सबसे बड़ी महामारी होगी।

हमारी सरकार ने बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए हैं लेकिन उनकी पालना नहीं होने के कारण सड़क के किनारे बने ढाबों, होटलों इत्यादि में आज भी बच्चे बाल मजदूरी कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है।

हमें एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए जब भी आपको कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों कि ऐसे ही अवहेलना होती रहेगी।

SANGAM SKM COLLEGE- NADI

SOLUTION WEEK ONE

SUBJECT: HINDI

YEAR LEVEL: 11

प्रश्न और उत्तर

दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए ।

१. 'पाँच तत्व से बना यह काया'

इस वाक्यांश का भावार्थ अपनी शब्दों में लिखिए ।

इस वाक्यांश का भावार्थ यही है कि हमारा शरीर पाँच तत्व - धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल से बना है ।

२. तीसरे छंद के जरिए कवि क्या संदेश देना चाहता है ?

तीसरे छंद के जरिए कवि यह संदेश देना चाहता है कि हम मानव को चोरी, हिंसा, लूट-मारी, निंदा और अपराध से दूर रहना चाहिए तभी हम मानव कहलाएँगे ।

३. कवि के अनुसार मानव कब दानव कहलाता है ?

कवि के अनुसार मानव तब दानव कहलाता है जब वह ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना रखता है तथा धन-दौलत और माल-खजाना मरते दम तक ढोता है ।

४. कविता के अनुसार मानव और पशु में क्या अन्तर दिखाया गया है ?

कविता के अनुसार मानव और पशु में यही अन्तर दिखाया गया है कि मानव सही और गलत की जानकारी रखता है शिक्षा हासिल करता है, दुख-सुख दोनों को गले लगाता है जबकि पशु सही-गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं । उन के जीवन का उद्देश्य है खाना, पीना और बच्चे पैदा करना ।

५. 'सुख और दुख हमारे साथी हैं ।' इस उक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं ?

इसकी व्याख्या अपनी शब्दों में कीजिए ।

हम इस उक्ति से बिलकुल सहमत हैं क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा । मानव जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं । हमें हँस कर दोनों को गले लगाना चाहिए क्योंकि दुख के बाद ही हम सुख का सही अनुभव कर सकते हैं । दुख या सुख किसी के भी जीवन में स्थायी नहीं रहता ।